

## Hindi Murli Quiz 04-07-2015

Q.1) दिन में भल धंधा आदि भी करो, शरीर निर्वाह तो करना ही है। .....

- A. ☐ अमृतवेले तो सबको फुर्सत रहती है। सवेरे-सवेरे चार पाँच बजे का टाइम बहुत अच्छा है। उस समय उठकर बाप को प्यार से याद करो।
- B. ☒ अमृतवेले तो सबको फुर्सत रहती है। सवेरे-सवेरे दो तीन बजे का टाइम बहुत अच्छा है। उस समय उठकर बाप को प्यार से याद करो।
- C. ☐ फिर रात को जागकर बाप को याद करो।
- D. ☐ फिर शाम क वक़्त बाप को प्यार से याद करो।

Q.2) पढ़ाई तो सहज है, मुख्य है पावन बनने की बात। बाप को भूलना यह तो बड़ी भूल है। देह-अभिमान में आने से ही भूलते हो। शरीर निर्वाह अर्थ धन्धा आदि भल \_\_\_\_\_ घण्टा करो, बाकी \_\_\_\_\_ घण्टा याद में रहने के लिए पुरुषार्थ करना है।

- 8
- ८
- आठ
- eight

Q.3) जिन बच्चों को पुरुषोत्तम संगमयुग की स्मृति रहती है

- A. ☒ वह ज्ञान रत्नों का दान करने बिना रह नहीं सकते।
- B. ☐ वह नारायणी नशे में रहते हैं।
- C. ☐ वह बाप को खूब याद करते हैं।
- D. ☐ वह ज्ञान को बहुत अच्छी रीति धारण करते हैं।

Q.4) पास्ट, प्रेजेंट, फ्युचर को जानना उनको ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। यह याद रखना पड़े। यह बड़ी मेहनत की बातें हैं। घड़ी-घड़ी भूल जाते हैं। नहीं तो तुम बच्चों को कितना \_\_\_\_\_ रहना चाहिए।

- A. ☐ आनन्द
- B. ☒ अतीन्द्रिय सुख
- C. ☐ शान्ति
- D. ☐ लव

Q.5) पुरुषार्थ करते-करते बच्चे अगर कभी फेल हो पड़ो तो

- A. ☐ भी बाप को यह व्यर्थ समाचार मत सुनाओ। इन पांच विकारों को भगाने के लिए याद की यात्रा को बढ़ाओ।
- B. ☒ बाप को समाचार दो, बाप सावधानी देंगे फिर से खड़े होने की।
- C. ☐ अपने आप से पूछो कि हम बाप की ग्लानि क्यों करवायें?
- D. ☐ दूसरों को यह ज्ञान मत दो क्योंकि फिर महापाप हो जाएगा।